

# ஸ்ரீ தோடகாஷ்டகம்

விதிதாகில சாஸ்த்ர ஸுதா ஜலதே

மஹிதோபநிஷத் கதிதார்த்தநிதே |

ஹ்ருதயே கலயே விமலம் சரணம்

பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் || 1 ||

கருணாவருணைய பாலய மாம்

பவஸாகர துக்க விதூன ஹ்ருதம் |

ரசயாகில தர்சன தத்த்வவிதம்

பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் || 2 ||

பவதா ஜனதா ஸுஹிதா பவிதா

நிஜபோதவிசாரண சாருமதே |

கலயேச்வர ஜீவவிவேகவிதம்

பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் || 3 ||

பவ ஏவ பவானிதி மே நிதராம்

ஸமஜாயத சேதஸி கௌதுகிதா |

மம வாரய மோஹமஹாஜலதம்

பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் || 4 ||

## ஸ்ரீ தோடகாஷ்டகம்

ஸூக்ருதே (அ) திக்ருதே பஹூதா பவதோ  
 பவிதா ஸமதர்சனலாஸதா |  
 அதிதீனமிமம் பரிபாலய மாம்  
 பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் || 5 ||

ஐகதீ மவிதும் கலிதாக்ருதயோ  
 விசரந்தி மஹா மஹஸ: ச்சலத: |  
 அஹரிமாம்சுரிவாத்ர விபாஸி குரோ  
 பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் || 6 ||

குருபுங்கவ புங்கவகேதந தே  
 ஸமதா மயதாம் ந ஹி கோ஽பி ஸுதி: |  
 சரணுகதவத்ஸல தத்த்வநிதே  
 பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் || 7 ||

விதிநா ந மயா விசதைக கலா  
 ந ச கிஞ்சன காஞ்சனமஸ்தி குரோ |  
 த்ருதமேவ விதேஹி க்ருபாம் ஸஹஜாம்  
 பவ சங்கர தேசிக மே சரணம் || 8 ||

## श्री तोटकाष्टकम्

विदिताखिलशास्त्रसुधाजलधे  
महितोपनिषत्कथितार्थनिधे ।  
हृदये कलये विमलं चरणं  
भवशंकर देशिक मे शरणम् ॥ 1 ॥

करुणावरुणालय पालय मां  
भवसागरदुःखविदूनहृदम् ।  
रचयाखिलदर्शनतत्त्वविदं  
भवशंकर देशिक मे शरणम् ॥ 2 ॥

भवता जनता सुहिता भविता  
निजबोधविचारण चारुमते ।  
कलयेश्वर जीवविवेकविदं  
भवशंकर देशिक मे शरणम् ॥ 3 ॥

भव एव भवानिति मे नितरां  
समजायत चेतसि कौतुकिता ।  
मम वारय मोहमहाजलधिं  
भवशंकर देशिक मे शरणम् ॥ 4 ॥

## श्री तोटकाष्टकम्

सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो  
भविता समदर्शनलालसता ।  
अतिदीनमिमं परिपालय मां  
भवशंकर देशिक मे शरणम् ॥ 5 ॥

जगतीमवितुं कलिताकृतयो  
विचरन्ति महामहसशछलतः ।  
अहिमांशुरिवात्र विभाशि गुरो  
भवशंकर देशिक मे शरणम् ॥ 6 ॥

गुरुपुंगव पुंगवकेतन ते  
समतामयतां नहि कोऽपि सुधीः ।  
शरणागतवत्सल तत्त्वनिधे  
भवशंकर देशिक मे शरणम् ॥ 7 ॥

विदितानमया विशदैककला  
न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो ।  
दृढमेव विधेहि कृपां सहजां  
भवशंकर देशिक मे शरणम् ॥ 8 ॥

---

# Totakashtakam

(A hymn of eight verses by  
Totakacharya - disciple of Adi Sankara)

viditAkhilasAstrasudhAjaladhE  
mahitOpanishatkathitArthanidhE|  
hridayE kalayE vimalam charaNam  
bhava sankara dEsika mE saraNam || 1 ||

Oh, Thou, the knower of the entire ocean of milk of scriptures, He who teaches the truths found in the great treasure chest of the Upanishads ! I meditate on Thy faultless feet. Be Thou my refuge, Oh Master Sankara !

karuNAvaruNAlaya pAlaya mAm  
bhavasAgara dukhkha vidUnahridam |  
rachayAkhiladarsanatattvavidam  
bhava sankara dEsika mE saraNam || 2 ||

Oh, Thou Ocean of compassion ! Save me whose heart is tormented by the misery of the sea of birth. Make me understand the truths of all schools of philosophy ! Be Thou my refuge, Oh Master Sankara !

bhavatAjanatA suhitA bhavitA  
nijabOdhavichAraNa chArumatE |  
kalyEsvara jlvavivEkavidam  
bhava sankara dEsika mE saraNam || 3 ||

By Thee the masses have been made happy. Oh, Thou of noble intellect, skilled in the quest of Self-Knowledge ! Enable me to understand the wisdom relating to God and the Soul. Be Thou my refuge, Oh Master Sankara !

bhava Eva bhavA nitti mE nitarAm  
samajAyata chEtasi kowtukitA |  
mama vAraya mOhamahAjaladhim  
bhava sankara dEsika mE saraNam || 4 ||

Knowing that Thou art verily the Supreme Lord, overwhelming bliss arises in my heart. Protect me from the vast ocean of delusion. Be Thou my refuge, Oh, Master Sankara !

---

sukritE(a)dhikritE bahudhA bhavatO  
bhavitA samadarsanalAlasatA |  
atidInamimam paripAlaya mAm  
bhava sankara dEsika mE saraNam || 5 ||

Desire for the insight in unity through Thy Grace will grow only when virtuous deeds are in abundance - and in all directions. Protect this extremely helpless person. Be Thou my refuge, Oh Master Sankara !

jagatImavitum kalitAkritayO  
vicharanti mahAmahasachalata: |  
ahimAmsurivAtra vibhAsi gurO  
bhava sankara dEsika mE saraNam || 6 ||

Oh Teacher ! For the purpose of saving the world the Great Ones take various forms and wander in disguise. Of these great Ones, You shine like the sun ! Be Thou my refuge, Oh Master Sankara !

guru pungava pungava kEtanatE  
samatAmayatAm nahi kOpi sudhIhi |  
saraNAGatavatsala tattvanidhE  
bhava sankara dEsika mE saraNam || 7 ||

Oh, Best of Teachers ! Supreme Lord Who has the sacred bull as His banner ! None of the wise Ones is equal to Thee ! Thou are compassionate to those who take refuge in Thee ! Thou treasure chest of Truth ! Be Thou my refuge, Oh Master Sankara !

viditA na mayA visadaikakalA  
na cha kinchana kAnchana masti gurO |  
drutamEva vidhEhi krupAm sahajAm  
bhava sankara dEsika mE saraNam || 8 ||

I do not understand corerectly even a single "branch of knowledge". I do not possess even the least bit of wealth. Oh Teacher, quickly bestow on me Thy Grace. Be Thou my refuge, Oh, Master Sankara !